

RBI to pay ₹57,128 cr dividend to Govt

PTI ■ MUMBAI
The Reserve Bank of India board on Friday approved a dividend payout of Rs 57,128 crore to the government, a move in line with the Budget expectation but may not help plug a huge revenue hole created by the pandemic and slowing economy.

as per the revised Economic Capital Framework (ECF).
In a statement, the RBI said its central board headed by Governor Shaktikanta Das "reviewed the current economic situation, continued global and domestic challenges and the monetary, regulatory, and other measures taken by RBI to mitigate the economic impact of COVID-19 pandemic."
"The Board also approved the transfer of Rs 57,128 crore as surplus to the Central Government for the accounting year 2019-20, while deciding to maintain the Contingency Risk

Buffer at 5.5 per cent," it said.
Finance Minister Nirmala Sitharaman in the budget for 2020-21 had provisioned receipt of Rs 60,000 crore in dividend from the RBI and other banks to bridge the fiscal deficit. But, government officials had expected more from the Reserve Bank of India (RBI).
The government is facing a larger-than-expected shortfall in revenue as the economy heads for its first full-year contraction since 1979. With the COVID-19 pandemic disrupting businesses, it is widely speculated that tax collections


will miss the target.
At the same time, the government is being forced to spend more to cushion the blow from the pandemic, straining the budget deficit.
The central bank largely earns profit through its trading of currencies and government bonds as well as printing of notes and coins.
Part of these earnings is set aside by the RBI for its operational and contingency needs, while the rest is transferred to the government in the form of dividend.
RBI's financial year runs

from July-June at present and is scheduled to be harmonised with the government's April-March fiscal starting FY22. In the current year, the RBI will have a nine-month financial year, ending in March.
The central bank's payout to the government last year was more due to a one-time transfer on account of the adoption of a new economic capital framework that calls for maintaining the level of the contingency risk buffer, or realised equity, at between 5.5 and 6.5 per cent of RBI's balance sheet.

WPI inflation falls 0.58% in July, food prices spike

PTI ■ NEW DELHI

The wholesale price-based inflation stood at (-)0.58 per cent in July, remaining in the negative zone for the fourth straight month even as vegetables and other food items turned costlier. WPI inflation in June was (-) 1.81 per cent, while for the month of May and April it was (-) 3.37 per cent and (-) 1.57 per cent respectively.



ened and inflation fell 25.56 per cent, with in fruits it was (-) 3.03 per cent. Inflation in fuel and power basket fell 9.84 per cent in July, compared to 13.60 per cent drop in the previous month. Manufactured products, however, witnessed inflation of 0.51 per cent in July, against 0.08 per cent in June.

ICRA Principal Economist Aditi Nayar said the considerable narrowing in the WPI disinflation in July 2020 relative to the previous month, was along expected lines, with a correction in the index levels for crude oil and mineral oils, further narrowing of the core disinflation and a rise in food inflation. "The surge in tomato prices and moderate rise in potato prices pushed up the vegetable inflation in July 2020, contributing to the uptick in the inflation for primary food articles to a four-month high.

Markets retreat for 3rd day; bank stocks bleed

PTI ■ MUMBAI

Equity indices nursed losses for the third straight session on Friday as investors pruned exposure to banking, financial and consumption stocks amid negative global cues.

Weak macroeconomic data and a depreciating rupee further curbed risk appetite, traders said.
Banking stocks were under pressure following lacklustre industrial production and retail sales data in China.
Bourses in Hong Kong and Seoul ended in the red, while Shanghai and Tokyo settled with gains.
Stock exchanges in Paris, Frankfurt and London plunged up to 2 per cent in early deals, dragged by travel stocks, after the UK added more European countries to its quarantine list.
Global oil benchmark Brent crude was trading 0.65 per cent lower at USD 44.67 per barrel. In the forex market, the rupee settled 6 paise lower at 74.90 against US dollar.

meat and fish, official data released post market hours on Thursday showed.
BSE auto, bankex, finance, oil and gas, FMCG and telecom indices fell up to 2.50 per cent in Friday's session, while metal, healthcare and consumer durables closed higher.
Broader BSE mid-cap and small-cap indices fell up to 1.02 per cent.
Global equities were under pressure following lacklustre industrial production and retail sales data in China.
Bourses in Hong Kong and Seoul ended in the red, while Shanghai and Tokyo settled with gains.
Stock exchanges in Paris, Frankfurt and London plunged up to 2 per cent in early deals, dragged by travel stocks, after the UK added more European countries to its quarantine list.
Global oil benchmark Brent crude was trading 0.65 per cent lower at USD 44.67 per barrel. In the forex market, the rupee settled 6 paise lower at 74.90 against US dollar.

Bank credit and deposits grew 5.51 per cent and 11.11 per cent to Rs 102.65 lakh crore and Rs 141.61 lakh crore, respectively, in the fortnight ended July 31, according to the latest data from the RBI.
In the fortnight ended August 2, 2019, bank credit and deposits were at Rs 97.29 lakh crore and Rs 127.44 lakh crore, respectively.
On a year-on-year (y-o-y) basis, non-food bank credit growth was at 6.7 per cent in June 2020, nearly the same as in May 2020 but lower than the growth of 11.1 per cent in June 2019.

Bank credit grows 5.51 pc, deposits 11.11 pc: RBI data

PTI ■ MUMBAI

States can make e-way bill mandatory for transportation of gold within the respective states but implementing it for inter-state movement across India will not be feasible, a state-ministerial panel suggested on Friday.
The group of ministers (GoM), comprising finance ministers of Kerala, Bihar, Gujarat, Punjab, Karnataka and West Bengal, set up to examine feasibility of implementation of e-way bill for movement of gold and precious stones met via video conferencing.
"It was decided that if any state wants to implement e-way bill for gold, they can do so for intra- or within the state transportation," Bihar Deputy Chief Minister Sushil Modi told PTI.

Allow e-way bill for intra-State transportation of gold: GoM

PTI ■ NEW DELHI

States can make e-way bill mandatory for transportation of gold within the respective states but implementing it for inter-state movement across India will not be feasible, a state-ministerial panel suggested on Friday.
The group of ministers (GoM), comprising finance ministers of Kerala, Bihar, Gujarat, Punjab, Karnataka and West Bengal, set up to examine feasibility of implementation of e-way bill for movement of gold and precious stones met via video conferencing.
"It was decided that if any state wants to implement e-way bill for gold, they can do so for intra- or within the state transportation," Bihar Deputy Chief Minister Sushil Modi told PTI.

Gr Noida brings open-ended scheme of residential buildings

PTI ■ MUMBAI

Greater Noida: On the occasion of Independence Day, the Greater Noida Authority is bringing an open-ended scheme of residential buildings from date, GNIDA CEO Narendra Bhooshan said. Under which you can decorate the dream of dwelling by not applying for the request. It is a special occasion for them that if they are living on rent or are confused with the breathtaking plans of the builders, then the authority is providing them a lot of opportunity to choose the building of their choice in this scheme.

₹ settles 6 paise lower at 74.90 against US \$

PTI ■ MUMBAI

Mumbai: The rupee on Friday slid 6 paise to end at 74.90 against US dollar as data showing slow economic recovery and higher inflation dampened forex market sentiment.
At the interbank forex market, the local unit opened at 74.85 and then lost further ground to settle at 74.90, registering a decline of 6 paise over its previous close of 74.84 to the US dollar.
During the session, the rupee witnessed an intra-day high of 74.74 and a low of 74.93 against the greenback.
On weekly basis, the rupee inched up 3 paise against the US dollar. **PTI**

Metro RLY OBSERVES CLEANLINESS WEEK

PTI ■ KOLKATA

Kolkata: Metro Railway has undertaken a special cleanliness drive in order to observe Cleanliness Week from 10th August to 16th August, 2020. Metro officers and staff have been participating in this drive in order to make Metro premises more beautiful and clean and augment its aesthetics.
On Friday for the fifth consecutive day, cleanliness drives were organised at North-South and East-West Metro stations in which Metro staff participated in numbers maintaining all COVID-19 protocols.
During this week, special focus is given on collection and disposal of plastic wastes in and around Metro premises.

Milaap introduces free fundraising

PTI ■ NEW DELHI

New Delhi: For charitable organisations and personal causes during the Covid pandemic, Milaap is introducing a free fundraising platform for the upcoming festive season from the Independence Day.
"We made Milaap free for all relief related fundraisers as a token of gratitude. Therefore, it made perfect sense for extending this 0% fee to all fundraisers," said Mayukh Choudhury, co-founder and CEO of Milaap.

WESTERN RAILWAY VARIOUS WORKS

Sr. No.	e-Tender Notice No. & Date	Work and location	First Year Reserve Price Rs.	Approx. cost of Work Rs.	Cost of Tender Form Rs.	EMD Rs.
1.	CA-11-NFR-OOH-WP-BPark-57 dated 13.08.2020	Bulk advertising rights of Wall Painting on Boundary walls of Badwar Park Railway colony facing west, total display area 720 sq. ft., for a period of five years.	₹ 29,250/- (excluding taxes etc.)	₹ 1,56,939/- (excluding taxes etc.)	₹ 1,000/-	₹ 3,200/-
2.	CA11-NFROOH-LC-UDN-JL-56 dated 13.08.2020	Bulk advertising rights for erection & display of hoardings at Level Crossing Gates between Udhana and Jalgaon section for 24 Hoardings, total display area 4650 sq. ft., for a period of five years.	₹ 4,66,200/- (excluding taxes etc.)	₹ 24,78,472/- (excluding taxes etc.)	₹ 3,000/-	₹ 49,600/-
3.	CA-11-NFR-OOH-BA-W-48 dated 13.08.2020	Bulk advertising rights for erection & display of hoardings at Bandra station West, adjoining to extreme west railway boundary facing station for 6 hoardings of size 20' x 20' each, for total display area of 2400 sq. ft., for a period of five years.	₹ 32,64,000/- (excluding taxes etc.)	₹ 1,73,52,497/- (excluding taxes etc.)	₹ 5,000/-	₹ 3,47,100/-
4.	CA-11-NFR-OOH-ADH-E-49 dated 13.08.2020	Bulk advertising rights for erection & display of hoardings at Andheri station - East, at Km 21/1001 & 21/1003 facing tracks, along the Railway boundary wall for 4 hoardings of size 20' x 10' each for total display area 800 sq. ft., for a period of five years.	₹ 15,23,840/- (excluding taxes etc.)	₹ 81,01,234/- (excluding taxes etc.)	₹ 5,000/-	₹ 1,62,100/-

WESTERN RAILWAY
NOTICE:- Please visit our website www.irps.gov.in to download the tender document, corrigendum and further details. Cost of tender and EMD shall be accepted only through online net banking or E-payment gateway. Bidder should regularly visit website to keep themselves updated. For Sr. 1 to 4: Website where Tender form available: www.irps.gov.in Completion Period: Five Years For Sr. 1: Date & Time of closing of online: submission Upto 15.00 hrs on 10.09.2020 For Sr. 2: submission Upto 15.00 hrs on 14.09.2020 For Sr. 3 & 4: submission Upto 15.00 hrs on 15.09.2020
ANJ-07
Like us: www.facebook.com/WesternRly Follow us: www.twitter.com/WesternRly

SUPRA INDUSTRIAL RESOURCES LIMITED
1212, Hemkund Tower-39, Nehru Place, New Delhi - 110 019
Phone: 011-41608996, Website: www.supraindustrialresources.in
Email: supraexchange@gmail.com CIN: L65999DL1985PLC019987
Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30.06.2020

S. No.	Particulars	Rs. In Lakhs (Except EPS)		
		Quarter Ending	Previous Quarter Ended	Corresponding three months ended in the previous year
		30-Jun-20 Unaudited	31-Mar-20 Audited	30-Jun-19 Unaudited
1	Total income from operations (net)	0.91	0.99	1.09
2	Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax*	(1.28)	(1.87)	(1.86)
3	total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1.28)	(1.87)	(1.86)
4	Equity Share Capital	25.00	25.00	25.00
5	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	12.26	12.26	18.60
6	Earnings Per Share (from ordinary items) (of Rs.10/- each) (In Rs.) 1. Basic: 2. Diluted :	(0.50)	(2.55)	(0.74)

*The Company does not have any extraordinary item to report for the above period

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarter ended 30.06.2020 Financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulation, 2015. The full financial results is available on the company's Website www.supraindustrialresources.in and on the stock exchange website www.mse.in
2. The Unaudited standalone financial results of the Company for the quarter ended 30.06.2020 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 14.08. 2020.
3. This statement has been prepared in accordance with the companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

for Supra Industrial Resources Ltd.,
Rajat Agarwal
Director
(DIN 00266205)

MEYER APPAREL LIMITED
CIN: L1810HR1993PLC032010
Regd. Office: #412, 4th Floor, Orient Besech Business Tower, Khandas, Sector-34, Gurugram - 122004, Haryana, India
NOTICE
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of Meyer Apparel Limited is rescheduled and will now be held on Thursday, 20th August, 2020 at 2:00 p.m. at # 412, 4th Floor, Orient Besech Business Tower, Khandas, Sector-34, Gurugram - 122004. Arrangement will also be made for participation of Board members electronically through video - conferencing facility. This notice is also available on the website of the company at www.meyerapparel.com and on the website of BSE Ltd. at www.bseindia.com, where the company's shares are listed.
For Meyer Apparel Limited
Sd/-
Nityasha Bakshi
Associate Company Secretary
Place : Gurugram
Date : August 14, 2020

WESTERN RAILWAY TRACK MACHINE WORK
e-Tender Notice No. W641/22/19/10A dated 13.08.2020. Chief Engineer (TMC), Western Railway, HQ Incharge, Churchgate, Mumbai-400 020. Invites e-Tender as per the details given below: (i) e-Tender No. : W641/22/19/10A (ii) Name of the Work : Procurement of Tungsten Carbide Tip Tamping Tools for Tamping machines. (Make: Plasser or equivalent). (iii) Approximate Cost : Rs. 30,12,140.25. (iv) Earnest Money Deposit : Rs. 60,250.00. (v) Tender Closing Date : 15.09.2020 at 11.00 Hrs. (vi) Tender Opening Date : 15.09.2020 at 11.15 Hrs. (vii) Regarding detailed notice containing cost of tender document (non refundable), EMD, eligibility criteria, similar nature of work, detailed tender conditions. Please visit www.irps.gov.in. Manual offers will not be considered. ANJ-05
Like us: www.facebook.com/WesternRly

PRAKASH WOOLLEN & SYNTHETIC MILLS LIMITED
CIN - L17291UP1979PLC004804
Regd. Office: 18th Km Stone, Delhi Moradabad Road NH-24, Village Amhera, Distt. J. P. Nagar, UP- 244102
Website: www.prakashwoollen.com
Email: info@prakashwoollen.com
NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 21st August, 2020 to consider and take on record the Un-Audited Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2020 among other things.
A copy of the said Notice and the Financial Results shall also be available at the Company's website at www.prakashwoollen.com and on Stock Exchange Website at www.bseindia.com.
For Prakash Woollen & Synthetic Mills Limited
Sd/-
VIJAY KUMAR GUPTA
WHOLETIME DIRECTOR & CFO
Place: Village Amhera (Amroha)
Date : 14.08.2020 DIN: 00335325

NORTHERN RAILWAY NOTICE INVITING TENDER
Name of work and its location: 30-Elect-18-T-2020-21-E3 Electrical work in connection with improvement of lighting in goods terminal at FN, PWL, SHDM, KKDE, KLE, MSZ, ROK & GGN over Delhi Division.
Approx cost of the works in Rs. 91.62 lacs
Address of the office: Sr. Divl. Elect. Engineer/General, New Delhi.
Earnest Money: Rs. 183300.00
Date & time of submission of tender: 08.09.2020, 12.00 Hrs.
Opening of tender: 08.09.2020, 12.00 Hrs.
Website & notice board: www.irps.gov.in & Sr. Divl. Elect. Engineer/General, New Delhi.
1759/2020
SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

SUPERIOR FINLEASE LIMITED
CIN: L74899DL1994PLC061995
Regd. Off: NS-92, Kharsa No-33/21, Ranaji Enclave, Najafgarh, Near Arjun Park Bus Stand New Delhi -110043
Email id: superiorfinlease@gmail.com; Website: www.superiorfinlease.com
Extract of Statement of Un-audited Financial Results for the quarter ended on June 30, 2020 (Rupees in lacs)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter ended	Year ended	Quarter ended	Year ended	Quarter ended	Year ended
		30-06-20 Un-audited	30-06-19 Un-audited	31-03-20 Audited	30-06-20 Un-audited	30-06-19 Un-audited	31-03-20 Audited
1	Total income from operations	23.10	22.85	102.33	23.10	22.85	102.33
2	Net Profit for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	15.74	8.16	22.09	15.74	8.16	22.09
3	Net Profit for the period After Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	15.74	8.16	22.09	15.74	8.16	22.09
4	Net Profit for the period After Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	15.74	6.04	16.31	15.74	6.04	16.31
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	15.74	4.95	18.91	15.74	4.95	18.91
6	Equity Share Capital	300.10	300.10	300.10	300.10	300.10	300.10
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet as shown in the previous year	3.31	(8.67)	(11.27)	3.31	(8.67)	(11.27)
8	Earning Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) (a) Basic and Diluted EPS (before Extra-ordinary items) (in Rs.) (b) Basic and Diluted EPS (after Extra-ordinary items) (in Rs.)	0.52	0.20	0.54	0.52	0.20	0.54

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Results are available on the Stock Exchange Website (www.mse.in) and Company's website www.superiorfinlease.com.
For Superior Finlease Limited
Sd/-
(RAJNEESH KUMAR)
Director
DIN: 02463693

बिहार सरकार
प्रार्थार्य का कार्यालय,
दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय
निविदा आमंत्रण सूचना

भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के माध्यम से, जो पूर्ण करने हेतु दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय के केन्द्रीय पुस्तकालय एवं विभागीय पुस्तकालय के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में मेडिकल पुस्तकों की नवीनीकरण एवं मूल संरक्षण, विभिन्न विषयों/विशेषताओं के जर्नल (राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय) की आपूर्ति करने हेतु प्रकाशकों, प्राधिकृत विक्रेताओं अथवा अधिकृत विक्रेताओं जो FPBA, नई दिल्ली के माध्यम से करारों को पूरा करते हैं एवं जो ओओ सीओ के द्वारा पुस्तकों/जर्नलों की आपूर्ति के प्रतिकूल एजेंट हों वे निम्न शर्तों और स्थिति (Terms and Condition) के साथ विद्यालय के प्रथम प्राध्यापक की तिथि से 21 दिनों के अन्दर मुद्रण/दस्तावेजों में निविदा दाखल/स्वीड पोस्ट द्वारा निविदा समर्पित करने। 21 वे दिन अगरे किसी प्रकार का अस्वाभाव रस्ता है या किसी अप्रत्याशित कारण से प्राचार्य कार्यालय बंद रहता है तो सरसे अगरे दिन तक निविदा प्राप्त की जायेगी। निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अगरे दिन क्रय समिति के सम्म निविदा खोली जायेगी। जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
20-मेडिकल पुस्तकों/जर्नलों की सूची केन्द्रीय पुस्तकालय में कार्य दिवस में 10 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं या कार्यालय के वेबसाइट-www.darbhangamedicalcollege.com पर देखी जा सकती है।
21-वित्तीय निविदा में पुस्तकों/जर्नलों की सूची का मूल्य भारतीय रुपय में GST रहित एवं GST सहित Excel Sheet में CD के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
22-निविदा हेतु Excel Sheet का प्रारूप।

Sl.No.	Author	Name of books	Price	Discount	Total

प्राचार्य
दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय
PR. No. 004895 (Health) 2020-21
नोबल कोरेना के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं सहाय्य हेतु Toll Free No.: 104 पर संपर्क कर सकते हैं।
चाय सामग्री-संबंधी किसी तरह की जानकारी अथवा सहाय्य हेतु दूरभाष संख्या 0612-2217636 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

REGENT ENTERPRISES LTD
Registered Office: E-205 (LGF), Greater Kailash-II, New Delhi-110 048
Phone:011-29213191
Email: info@regententerprises.in
CIN:L15500DL1994PLC153183
Website: www.regententerprises.in
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held at 14/17, Naya Garh, Ghaziabad-201001 on Monday, the 24th day of August, 2020 at 4.00 pm, inter alia, to consider, approve Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended on 30th June, 2020.
Pursuant to this, the trading window for the insiders shall remain closed upto 48 hours of declaration of the results for all designated persons, their immediate relatives and all connected persons as amended. The same Financial Result of the Company will be available at www.regententerprises.com
For REGENT ENTERPRISES LTD
Place: New Delhi Sd/-
Date: 14.08.2020 Vikas Kumar
Whole Time Director
DIN: 05308192

WESTERN RAILWAY E-PROCUREMENT TENDER NOTICE No.S/16/2020 Date 13.08.2020

S.N.	Short Description of item	Quantity	T.O.D.
428	Real Time RT PCR	1 No.	28.08.2020
429	Bogie Bolster Arrangement	96 Nos.	04.09.2020
430	Paint Aluminium	30160 Ltrs.	05.09.2020
431	Tensioning device Assy.	315 Set	05.09.2020
432	Vinyl Coated Upholstery Fabric	80917 Mtrs.	07.09.2020
433	Pair of Leather Hand Gloves	12587 Pair	07.09.2020
434	Set of Lock Assy.	43 set	07.09.2020
435	Car Activating Key Switch (POS.No.125).	37 Nos.	07.09.2020
436	Main compressor 1745 LPM	80 Nos.	07.09.2020
437	High Reach Pantograph	48 Nos.	07.09.2020
438	CCPU Side Bearer Pad Assy. 22HS Bogies	919 Nos.	07.09.2020
439	Centre Pivotal Top for Casnub 22 HS(Mod-I) Bogie	1166 Nos.	07.09.2020
440	Relay QN01 8F/8B	1005 Nos.	08.09.2020
441	Bogie Frame Arrangement	96 Nos.	08.09.2020
442	Wheel Profiling Inserts Kennametal	2371 Nos.	09.09.2020
443	R/M Paint Black	108400 Ltrs.	09.09.2020
444	Set of VRLA Battery 110V,70AH	203 Set	09.09.2020
445	Main Entrance Door Mounting (R.H.)	23 Nos.	09.09.2020
446	IOH Maintenance kit	20 Set	09.09.2020
447	R/M Paint Synthetic Enamel, Exterior	23977 Ltrs.	10.09.2020
448	Roof Mounted AC Package Unit	35 Nos.	10.09.2020
449	Pressure Sensor Converter Oil	21 Nos.	10.09.2020
450	Carbon Brush for HITACHI Type Traction	33399 Nos.	11.09.2020
451	Set of PU Lining	4531 Set	11.09.2020
452	CCPU Side Bearer pad Assy. 22NBL bogie	859 Nos.	11.09.2020
453	Slack adjuster complete type IRSA-750 BCNHL/BOXNHL Wagon	259 Nos.	11.09.2020
454	Two Part Sliding Door Arrangement	200 Nos.	11.09.2020
455	Copper Cathary Wire(19/2.10MM)	136600 Mtrs	

